



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 25, 1977/आषाढ़ 4, 1899

No. 102]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 1977/ASADHA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th June 1977

No. A-11019/70/77-Ad. VII.—The Government of India have decided to appoint a Committee of Experts to examine and suggest legal and administrative measures for simplification and rationalisation of the direct tax laws and such further alterations as are desirable in the interest of the national economy.

2. The Committee will consist of the following —

Chairman

Shri N A Palkhivala Senior Advocate, Bombay. ..

Members

Shri C C Chokshi, Chartered Accountant, Bombay.

Shri Harnam Shankar former President, Income-tax Appellate Tribunal, New Delhi.

Shri C C Ganapathi, Chairman, Settlement Commission, New Delhi.

Secretary

Shri T S. R. Narasimhan Commissioner of Income-tax, Bombay.

3 The Committee will—

- (a) recommend measures to simplify and rationalise the laws relating to income-tax, surtax, wealth-tax, gift-tax and estate duty, and to alter those laws with a view to making them readily comprehensible to taxpayers, reducing litigation and thus subserving the interest of the national economy;

- (b) suggest ways and means of improving the administration of those laws and expediting assessment, appellate and other proceedings under those laws,
 - (c) examine the advisability of consolidating the four laws relating to income-tax, surtax, wealth-tax and gift-tax into one Act;
 - (d) prepare drafts of the Bills for being presented before Parliament.
4. The headquarters of the Committee will be at Bombay. The Committee will devise its own procedure, and may call for such information as it considers necessary.
5. The Department of Revenue and Banking will provide the secretariat of the Committee.
6. The Committee will submit its Report and the draft Bills to the Ministry of Finance by 31st December, 1977.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जून, 1977

सं० ए-11019/70/77-प्रशा VII.—प्रत्यक्षकर कानूनों का सरलीकरण करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने तथा उनके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित अथवा में वांछनीय परिवर्तन करने की दृष्टि से उनकी जांच करने और उनके संबंध में कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा —

अध्यक्ष

श्री एन०ए० पालकीवाला, वरिष्ठ एडवोकेट, बम्बई।

सदस्यगण

श्री सी०सी० चौधरी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बम्बई।

श्री हरनाम शर्मा, भूतपूर्व अध्यक्ष, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

श्री सी० सी० गणपति, अध्यक्ष, समझौता आयोग, नई दिल्ली।

सचिव

श्री टी०एस०आर० नरिसिंहन्, आयकर आयुक्त, बम्बई।

3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी—

- (क) समिति आयकर, अतिकर, धनकर, दानकर और सम्पदाशुल्क से संबंधित कानूनों का सरलीकरण करने तथा उनको युक्तिसंगत बनाने के, और इन कानूनों से संबंधित कानूनों में इस दृष्टि से परिवर्तन करने के लिये कि वे करदाताओं के लिए सहज ही बोधगम्य बन सकें, उपायों की सिफारिश करेगी ताकि मुकदमों बाजी कम हो और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हित साधन हो सके ;

- (ख) समिति उक्त कानूनों के प्रशामन में सुधार करने तथा उन कानूनों में अन्तर्गत किये जा रहे कर-निर्धारण, अपीलिय तथा अन्य कार्यवाहियों को शीघ्रता से करने के लिए उपाय सुझायेगी ;
- (ग) समिति आयकर, अतिकर, धनकर तथा दानकर में संशोधित चार कानूनों को एक अधिनियम में समेकित करने के औचित्य की जांच करेगी ,
- (घ) संसद में पेश करने के लिये विधेयको के प्राल्प तैयार करेगी ।
4. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा । समिति अपनी कार्यविधि निर्धारित करेगी और जो सूचना वह आवश्यक समझेगी संग्रहीत करेगी ।
5. राजस्व और बैंकिंग विभाग, समिति के सचिवालय की व्यवस्था करेगा ।
6. समिति अपनी रिपोर्टें और विधेयको के प्राल्प 31 दिसम्बर, 1977 तक, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस मस्यौदा की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाय और इसे सर्वसाधारण की सूचना के रूप में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

हिमाद्रि नारायण राय, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

